

परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्था
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
अणुशक्ति नगर, मुंबई - 400094
ANUSHAKTI NAGAR, MUMBAI - 400094.

प्रति/To

सहायक लेखा अधिकारी (भविष्य निर्वाह निधि अनुभाग) / Asst. Accounts Officer(PF Section),
प.ऊ.शि.सं, मुंबई / AEES, Mumbai.

(उचित माध्यम द्वारा /Through proper channel)

विषय : _____ वर्ष के लिए जीपीएफ अंशदान में वृद्धि/कमी

Sub : Increase / Decrease of GPF / CPF subscription for the year _____

जीपीएफ संख्या : प.ऊ.शि.सं/जीपीएफ _____ GPF No : AEES / GPF _____

यह निवेदन किया जाता है की _____ रुपये की राशि
(रुपये _____) प्रदत्त माह में जीपीएफ शुल्क मेरे वेतन

से वसूल करें। इनका विवरण निम्नलिखित हैं।

It is requested that an amount of Rs. _____ (Rupees _____
_____) may please be recovered from my salary towards GPF/CPF subscription from the paid
month of _____. The details are as under :-

1. नाम /Name : _____

2. पदनाम/ Designation : _____

3. संगणक संकेत संख्या / Computer Code No : _____

4. मार्च 20__ मूल वेतन/Basic pay as on March, 20__ : _____

5. वर्तमान राशि का शुल्क/Existing amount of subscription : _____

6. अभिदत्त की प्रस्तावित राशि/Proposed amount to be subscribed : _____

(नोट : वार्षिक भविष्य निधि अंशदान 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए)

(Note : Annual Provident Fund subscription should not be more than 5 Lakh)

7. कार्य का स्थान/Place of Duty: केन्द्रीय कार्यालय/प.ऊ.क.म/प.ऊ.के.वि./Central Office/AEJC/AECS: _____

मैं इस बात से सहमत हूँ कि कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/6/2021-P&PW(F) दिनांक 11.10.2022 के अनुसार मेरे भविष्य
निधि खाते में मैं वार्षिक सदस्यता का योगदान रुपये 5 लाख से अधिक नहीं करूंगा।

I hereby agree that I will not contribute more than annual subscription of Rs. 5 Lakh in my provident fund
account as per OM No. 3/6/2021-P&PW(F) dated 11.10.2022

Date :

Signature of the applicant